



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 29.05.2019

पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर पहला टीएसएस चालू



डीएफसीसीआईएल ने परियोजना को पूरा करने में आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के 343 किमी. लंबे खुर्जा- भाउपुर सेक्शन पर टूंडला के पास बिरूनी में 63 एम.वी.ए (मेगा वोल्ट एम्पियर) का पहला ट्रेक्शन सब-स्टेशन 25.05.2019 को चालू किया गया। बिरूनी से दरियापुर के 66 किमी. लंबाई के खंड पर 2x25 केवी के ओएचई को आज चार्ज किया गया है। यह एक शानदार उपलब्धि है जिससे कि डीएफसीसीआईएल पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द्वारा मालभाडा गाडियों के संचालन के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

डीएफसी की पूरी लंबाई के साथ कुल 45 टीएसएस की योजना है जिसमें पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (जेएनपीटी से दादरी) पर 25 टीएसएस और पूर्वी डीएफसी (लुधियाना से सोननगर तक) पर 20 टीएसएस होंगे। पश्चिमी डीएफसी लगभग 1504 रूट कि.मी. और पूर्वी डीएफसी (सोननगर - दानकुनी पीपीपी भाग को छोड़कर) लगभग 1328 रूट किमी. में फैला हुआ है। पश्चिमी डीएफसी में समतल वैगनों पर डबल स्टैक कंटेनर के संचालन के लिए ओएचई की उंचाई भारतीय रेलवे (आईआर) के लिए मौजूदा 5.5 मीटर की तुलना में 7.4 मीटर है। डीएफसी में 2 x 25 केवी ओएचई का प्रावधान है जो उच्च गति से अधिक भार ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है, जबकि भारतीय रेल में 25 केवी ओएचई क्षमता है।

डीएफसीआईएल अपने लक्ष्य की समय सीमा हासिल करने के लिए तेजी से प्रगति कर रहा है। डीएफसी का कार्य वर्ष 2021 तक पूरा हो जाएगा।

पश्चिमी डीएफसी:

- पहली डबल स्टैक कंटेनर मालगाडी अटेली - फुलेरा खंड (190 किमी) के बीच 15.08.2018 को सफलतापूर्वक चलाई गई।
- पश्चिमी डीएफसी के 306 किमी. मदार (अजमेर) - न्यू रेवाड़ी - किशनगढ़ बलावास खंड पर एक ट्रायल रन 30.12.2018 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
- मदार -पालनपुर खंड 31.03.2020 तक पूरा हो जाएगा।
- पालनपुर से जेएनपीटी (मुंबई खंड) का कार्य वर्ष 2021 तक पूरा हो जाएगा।

पूर्वी डीएफसी:

- भदान- खुर्जा खंड (194 किमी) पर मालगाडी का सफल ट्रायल रन 30.11.2011 को पूरा किया गया।
- भदान - भाउपुर खंड का कार्य 30.11.2019 तक पूरा हो जाएगा।
- भाउपुर - मुगलसराय खंड का कार्य 31.12.2020 तक पूरा हो जाएगा।
- मुगलसराय- सोननगर खंड का कार्य दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा।

प्रकाशनार्थ/प्रसारणार्थ

(राजेश चौपडा)
उप महाप्रबंधक/सीसी
9717636812